



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3—मार्च 9, 2007 (फाल्गुन 12, 1928)

No. 9]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3—MARCH 9, 2007 (PHALGUNA 12, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2007

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 102, दिनांक 7 फरवरी 2007—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित सहायकों को सं. से. मु. सेवा नियम 2001 को नियत 7(8) के अंतर्गत 24 फरवरी 2006 से 23 अगस्त 2006 तक अथवा नियमित पदाधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

(क) श्रीमति राधा जी नायर

(ख) श्री देव राज

(ग) श्री दुली चन्द

(घ) श्री रघुराज सिंह

(ङ) श्री परमा नंद शर्मा

(च) श्री जी एस वर्मा

(छ) श्री धर्मराज शर्मा

(ज) श्री रमेश चंद इसवानी

(झ) श्री शंकर बोस

(ञ) श्रीमति एस के कपूर

(ट) श्री मोहिंदर सिंह

(ठ) श्री राम कुमार

(प्राधिकार-ए/47922/एस ओ/7(8)/2006/मुप्रअ/कार्मिक-1/08
दिनांक 28 फरवरी 2006)

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

थल सेना विभाग

सं. 103, दिनांक 8 फरवरी 2007—राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं।

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर दलबीर सिंह (जेसी-216651के), पहले जैक राईफल्स—08 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर जोगिन्दर सिंह (जेसी-428088वाई), पहले पंजाब रेजीमेन्ट—08 अप्रैल 2006

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-661084एम), पहले ए. एस. सी.--
08 अक्टूबर 2005

सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-402340पी), पहले ब्रिगेड ऑफ
गार्ड्स--08 अप्रैल 2006

सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-402336एम), पहले ब्रिगेड ऑफ
गार्ड्स--08 अप्रैल 2006

सूबेदार शिशपाल (जेसी-488445ए), पहले जाट रेजीमेन्ट--
08 अप्रैल 2006

सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-203674एम), पहले मैक इनफेन्ट्री
रेजीमेन्ट--08 अप्रैल 2006

सूबेदार गोकुल चन्द (जेसी-478491एफ), पहले राजपूत रेजीमेन्ट--
08 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बजरंग सिंह शेखावत (जेसी-468542डब्ल्यू), पहले
राज राईफल्स--08 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार रोमेश कुमार (जेसी-428770डब्ल्यू), पहले पंजाब
रेजीमेन्ट--08 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार समुन्दर सिंह (जेसी-237795ए), पहले आर्मड
कोर--08 अप्रैल 2006

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 104, दिनांक 7 फरवरी 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं:--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

नायब सूबेदार रैंक में

हवलदार विद्यानाथ घोष (सं. 9509967ए अब जेसी 803830एच),
27 फरवरी 2006@

हवलदार दादी वेंकटा रमना राव (सं. 9509991डब्ल्यू अब जेसी
803841पी), 01 जनवरी 2006

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)।

हवलदार नरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 9509137के अब जेसी 803860ए),
29 मार्च 2006#

हवलदार चिन्मय रंजन परीजा (सं. 9509955एल अब जेसी
803865वाई), 05 अप्रैल 2006#

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 9510004ए अब जेसी
803866एफ), 22 मार्च 2006#

हवलदार पी साई मोहन (सं. 9510027एफ अब जेसी 803871एम),
05 अप्रैल 2006#

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)।

हवलदार विमल कान्त (सं. 9510040एल अब जेसी 803877एन),
03 अप्रैल 2006\$

हवलदार अनिल कुमार मिश्रा (सं. 9510044एफ अब जेसी
803880एन), 01 अप्रैल 2006

हवलदार भीम सिंह (सं. 9510045के अब जेसी 803881डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 9510049ए अब जेसी 803885एम),
01 अप्रैल 2006

हवलदार बृजेन्द्र अबरोल (सं. 9510056डब्ल्यू अब जेसी
803889एच), 05 अप्रैल 2006\$

हवलदार विनोद कुमार सिंह (सं. 9510057वाई अब जेसी
803890एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार विजया कुमार (सं. 9510059के अब जेसी 803892एच),
01 अप्रैल 2006

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)।

हवलदार बुद्धि बल्लभ डिमरी (सं. 9510061एफ अब जेसी
803894एन), 01 मई 2006

हवलदार राज बहादुर (सं. 9510064पी अब जेसी 803895डब्ल्यू),
01 मई 2006

हवलदार शिव शंकर सिंह (सं. 9510067एच अब जेसी 803897एफ),
01 मई 2006

हवलदार सत्यवान (सं. 9510069एन अब जेसी 803899एम),
01 मई 2006

हवलदार सतीश कुमार (सं. 9510072एन अब जेसी 803900डब्ल्यू),
01 मई 2006

हवलदार रामबीर (सं. 9510073डब्ल्यू अब जेसी 803901वाई),
01 मई 2006

हवलदार कुमार साहब (सं. 9510075एफ अब जेसी 803903के),
01 मई 2006

हवलदार मनोज कुमार झा (सं. 9510079एक्स अब जेसी 803905पी),
01 मई 2006

विजय कपूर
अवर सचिव

सं. 105, दिनांक 8 फरवरी 2007— राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

- नायब सूबेदार शितल सिंह (जेसी 263080एफ), 03 सितम्बर 2005
- नायब सूबेदार सुन्दर लाल यादव (जेसी 265499एल), 24 जून 2006/07 अप्रैल 2006*
- नायब सूबेदार गुरुबक्स सिंह (जेसी 264939एफ), 01 जून 2006
- नायब सूबेदार कुशल सिंह (जेसी 265639एम), 12 अगस्त 2006/01 जून 2006*
- नायब सूबेदार अजीत कुमार गोगई (जेसी 267204एच), 05 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006*
- नायब सूबेदार वेद सिंह (जेसी 267302एच), 19 नवम्बर 2006/25 अगस्त 2006*
- नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी 267494एल), 07 नवम्बर 2006/25 अगस्त 2006*
- नायब सूबेदार जोरा राम (जेसी 267458ए), 24 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006*
- नायब सूबेदार बलजीत (जेसी 265665एन), 01 अक्टूबर 2006
- नायब सूबेदार के राजा (जेसी 265981एम), 13 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*
- नायब सूबेदार हरी सिंह यादव (जेसी 267223एन), 27 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006*
- नायब सूबेदार मलखान सिंह (जेसी 265785एम), 29 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006*
- नायब सूबेदार सगत सिंह (जेसी 267156एन), 01 नवम्बर 2006
- नायब सूबेदार महेन्द्र नाथ राय (जेसी 265708एक्स), 28 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006*
- नायब सूबेदार बन्सता राम गुरजार (जेसी 265109एक्स), 18 नवम्बर 2006/01 जून 2006*
- नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी 265806एक्स), 16 नवम्बर 2006/01 जुलाई 2006*
- नायब सूबेदार रविन्द्र नाथ प्रधान (जेसी 267722एच), 16 नवम्बर 2006/12 अगस्त 2006*
- नायब सूबेदार सुच्चा सिंह (जेसी 265677एच), 05 नवम्बर 2006/29 अगस्त 2006*
- नायब सूबेदार गुरुध्यान सिंह (जेसी 268058ए), 01 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*
- नायब सूबेदार सत पौल (जेसी 266760एम), 18 नवम्बर 2006/30 अगस्त 2006*

नायब सूबेदार मस्त राम (जेसी 267032वाई), 18 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी 266935के), 05 नवम्बर 2006/31 अगस्त 2006*

नायब सूबेदार मोहम्मद साहबुद्दीन एस के (जेसी 266845एच), 03 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार सतेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी 265676ए), 11 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार रामाचन्द्रन वी (जेसी 265669के), 11 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार जुगमन्द्रा सिंह (जेसी 265444एफ), 09 नवम्बर 2006/01 जुलाई 2006*

नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी 267949डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार सोजी राम मीणा (जेसी 267254एन), 20 नवम्बर 2006/17 अगस्त 2006*

नायब सूबेदार उपेन्द्रा पलई (जेसी 265595ए), 18 नवम्बर 2006/28 अगस्त 2006*

नायब सूबेदार रविन्द्रन नायर आर (जेसी 266635एच), 01 नवम्बर 2006/20 अगस्त 2006*

नायब सूबेदार के पद में

बी एच एम सुरेन्द्रा कुमार त्रिपाठी (14498069एफ अब जेसी 269573वाई), 08 जुलाई 2006/01 अगस्त 2004*

हवलदार मदन मोहन मिश्रा (14361422डब्ल्यू अब जेसी 269574एफ), 17 मई 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार दारा सिंह (14479032एल अब जेसी 269575के), 27 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार बहादुर सिंह (14481752एल अब जेसी 269576एम), 27 जून 2006/20 अप्रैल 2006*

आर एच एम नारायण सिंह (14368598के अब जेसी 269577पी), 09 अगस्त 2006/01 जून 2006*

बी एच एम भाग सिंह (14491147एल अब जेसी 269578एक्स), 27 जून 2006/01 जून 2006*

हवलदार बहादुर सिंह (14367123एन अब जेसी 269579ए), 05 अगस्त 2006/08 जून 2006*

हवलदार जागीर सिंह (14496400एल अब जेसी 269580पी), 17 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार सागर सिंह (14368121पी अब जेसी 269581एक्स), 16 अगस्त 2006/16 जुलाई 2006*

हवलदार जोसे वी ओ (14495181एच अब जेसी 269582ए),
20 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार बिरेन्द्रा नाथ घोष (14478888के अब जेसी 269583एच),
28 सितम्बर 2006/24 अगस्त 2006*

हवलदार मदन लाल (14361358के अब जेसी 269584एल),
04 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

हवलदार मान सिंह (14364652पी अब जेसी 269585एन),
01 सितम्बर 2006

हवलदार गुरपाल सिंह (14482653पी अब जेसी 269586डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

हवलदार रणजीत सिंह (14496005एक्स अब जेसी 269587वाई),
01 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006*

हवलदार जगदीश सिंह (14481839एम अब जेसी 269588एफ),
01 नवम्बर 2006

हवलदार नारायण राम (14388248वाई अब जेसी 269491डब्ल्यू),
12 सितम्बर 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार गुरबचन सिंह (14364439पी अब जेसी 269492वाई),
13 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार विरेन्द्रा पाल (14396849वाई अब जेसी 269493एफ),
15 मई 2006/24 मार्च 2006*

आर एच एम अनन्दा के डी (14365004वाई अब जेसी 269494के),
05 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार पान्डुरंग पिश्टे (14478094वाई अब जेसी 269495एम),
07 अगस्त 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार कुलदीप सिंह (15104197ए अब जेसी 269496पी),
18 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार राधाकृष्णन पिल्ले पी (14496879एल अब जेसी 269497एक्स), 27 जून 2006/07 अप्रैल 2006*

हवलदार सतपाल सिंह (14486513ए अब जेसी 269498ए), 15 जून 2006/19 अप्रैल 2006*

हवलदार विजय कुमार (14474473वाई अब जेसी 269499एच),
22 मई 2006/28 अप्रैल 2006*

हवलदार आर एच एम कनी राम (14480475वाई अब जेसी 269500एम), 31 जुलाई 2006/24 मई 2006*

हवलदार राम पाल वर्मा (14361800के अब जेसी 269501पी),
23 सितम्बर 2006/20 जून 2006*

हवलदार विजय कुमार (14479802एम अब जेसी 269502एक्स),
29 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार आर एच एम राम चन्द्रा सिंह (14384174एक्स अब जेसी 269503ए), 04 सितम्बर 2006/30 जुलाई 2006*

हवलदार आर एच एम नबाव सिंह (14472129एन अब जेसी 269504एच), 30 अगस्त 2006/31 जुलाई 2006*

हवलदार अब्बास मिया (14479990वाई अब जेसी 269505एल),
17 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार आर एच एम पुरन चन्द्रा नियोलिया (14495280एल अब जेसी 269506एन), 22 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

हवलदार शिन्दे बालू पंढरी नाथ (14392684एन अब जेसी 269507डब्ल्यू), 28 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

बी एच एम सतवीर सिंह (14363999पी अब जेसी 269508वाई),
22 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

बी एच एम रोहतास (14368459ए अब जेसी 269509एफ),
03 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006*

हवलदार डोले ज्ञानेश्वर चंपत राव (15109582एन अब जेसी 269510डब्ल्यू), 06 मार्च 2006/29 नवम्बर 2005*

हवलदार कृष्ण देव चन्देल (14476201डब्ल्यू अब जेसी 269511वाई), 03 अगस्त 2006/17 फरवरी 2006*

हवलदार रनवीर सिंह चौहान (13889501एन अब जेसी 269512 एफ), 01 अप्रैल 2006/25 फरवरी 2006*

हवलदार बी एच एम आराम सिंह (14471479एन अब जेसी 269513के), 03 जून 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार जोगीन्द्र लाल (14397031डब्ल्यू अब जेसी 269514एम),
25 जुलाई 2006/26 जून 2006*

हवलदार कृष्ण मूर्ती के वाई (14479308डब्ल्यू अब जेसी 269515पी),
28 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

आर एच एम परशोत्तम सिंह (14485845एक्स अब जेसी 269516एक्स), 11 सितम्बर 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार हरीदया लाल शुक्ला (14368169एच अब जेसी 269517ए),
29 जुलाई 2006/11 जुलाई 2006*

हवलदार हेलकर प्रकाश सत्ययया (14490220डब्ल्यू अब जेसी 269518एच), 29 अगस्त 2006/16 जुलाई 2006*

हवलदार करनैल सिंह (14494179वाई अब जेसी 269519एल),
10 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार सूरेंद्र कुमार (14490025पी अब जेसी 269520ए),
07 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार कुमार वी (15109844वाई अब जेसी 269521एच),
15 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार सरमेश्वर सिंह (15106928एफ अब जेसी 269522एल),
01 अगस्त 2006

आर एच एम राजेश कुमार भारद्वाज (14398107एक्स अब जेसी 269523एन), 06 सितम्बर 2006/04 अगस्त 2006*

बी एच एम लोकेन्द्रा सिंह (14363547एम अब जेसी 269524डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2006/14 अगस्त 2006*

हवलदार राजेन्द्रा बालकृष्णा बवनकुले (14392201एल अब जेसी 269525वाई), 01 सितम्बर 2006

हवलदार कौशल किशोर सिंह (14478907के अब जेसी 269457डब्ल्यू), 19 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार लखविन्दर सिंह (14365518डब्ल्यू अब जेसी 269458वाई),
12 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार बिजेन्द्रा सिंह (14367148ए अब जेसी 269459एफ),
15 जून 2006/29 मार्च 2006*

हवलदार सूर्या नाथ सिंह (14478917एन अब जेसी 269460डब्ल्यू),
15 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार जगत नारायण (14470088डब्ल्यू अब जेसी 269461वाई),
30 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार महेश चन्द (14479039पी अब जेसी 269462एफ),
15 जून 2006/01 मई 2006*

हवलदार प्रदीप सिंह भदोरीया (14398243एन अब जेसी 269463के), 11 अगस्त 2006/08 मई 2006*

बी एच एम जौसेफ सी जे (14477723वाई अब जेसी 269464एम),
15 जून 2006/14 मई 2006*

हवलदार शेख अल्लाउद्दीन मोहम्मद साब (143632454एल अब जेसी 269465पी), 29 जून 2006/01 जून 2006*

बी एच एम दिप राज (14480460डब्ल्यू अब जेसी 269466एक्स),
01 जून 2006

हवलदार बाबु लाल (13889367एन अब जेसी 269467ए), 02 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार गणेश दास (14366282वाई अब जेसी 269468एच), 18 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार मान सिंह (14479561एक्स अब जेसी 269469एल),
01 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार अनन्दा मल्लीक (15103868एम अब जेसी 269470ए),
02 अगस्त 2006/13 जुलाई 2006*

हवलदार धनाजी हडाबे (14378724वाई अब जेसी 269471एच),
01 अगस्त 2006

हवलदार अबदुल करीम एम (14482435डब्ल्यू अब जेसी 269472एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार सुमोद कुमार (14492501एफ अब जेसी 269526एफ),
31 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार शिवनाथ सिंह बेहगेल (14480823पी अब जेसी 269527के),
13 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

!B-484GI/et

हवलदार सहदेव सिंह (14366158एक्स अब जेसी 269528एम),
15 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार बचन सिंह (14479776डब्ल्यू अब जेसी 269529पी),
17 जून 2006/01 मई 2006*

बी एच एम महेश चन्द्रा (14366123एफ अब जेसी 269530के),
11 जून 2006/22 मई 2006*

हवलदार दल सिंह (14363042डब्ल्यू अब जेसी 269531एम),
01 सितम्बर 2006/01 जून 2006*

बी एच एम बाबु लाल (14374499एक्स अब जेसी 269532पी),
04 अगस्त 2006/01 जून 2006*

हवलदार कुलबीर सिंह (14373240पी अब जेसी 269533एक्स),
30 अगस्त 2006/01 जून 2006*

हवलदार लक्ष्मनन सी (14480322पी अब जेसी 269534ए),
30 अगस्त 2006/01 जून 2006*

हवलदार भगवन्त सिंह (14399805एम अब जेसी 269535एच),
15 सितम्बर 2006/01 जून 2006*

हवलदार बी के सोमाशेरवरा रेड्डी (14376913के अब जेसी 269536एल), 03 जुलाई 2006/13 जून 2006*

हवलदार दुधनाथ सिंह (14485539एच अब जेसी 269537एन),
13 अक्टूबर 2006/16 जुलाई 2006*

बी एच एम थंकाचन जे (14478771एल अब जेसी 269538डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2006/18 अगस्त 2006*

बी एच एम अनील कुमार (14475784एक्स अब जेसी 269539वाई),
03 अक्टूबर 2006/18 अगस्त 2006*

हवलदार विदेश कुमार (14479584वाई अब जेसी 269540एन),
28 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

हवलदार सेटे कुमार राना (14481620एक्स अब जेसी 269589के),
02 मई 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार जानगीर सिंह (15110080एक्स अब जेसी 269590वाई),
26 जून 2006/25 मार्च 2006*

हवलदार दशरथ चंगु लोरवंडे (14480927डब्ल्यू अब जेसी 269591एफ), 28 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार चेबुलू असुवा (14353140एच अब जेसी 269592के),
26 मई 2006/01 मई 2006*

हवलदार चामकाउर सिंह (14477221डब्ल्यू अब जेसी 269593एम),
24 अगस्त 2006/01 जून 2006*

बी एच एम कन्वर पाल सिंह (14367195एक्स अब जेसी 269594पी), 31 जुलाई 2006/26 जून 2006*

हवलदार नरपत सिंह (14388221एफ अब जेसी 269595एक्स),
03 अक्टूबर 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार सुबेह सिंह यादव (14493034एफ अब जेसी 269596ए),
31 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार गोपाला कृष्णन के (14396723वाई अब जेसी 269597एच),
04 सितम्बर 2006/08 जुलाई 2006 *

हवलदार संजीव गुरंग (14400908ए अब जेसी 269598एल),
07 अगस्त 2006/12 जुलाई 2006 *

बी एच एम सुब्रमनी जी (15100291एम अब जेसी 269599एन),
17 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार वजीर सिंह (14486472एफ अब जेसी 269600एक्स),
14 सितम्बर 2006/02 अगस्त 2006 *

हवलदार पी ईलूमलाई (14370541एन अब जेसी 269601ए),
29 अगस्त 2006/03 अगस्त 2006 *

हवलदार बलदेव सिंह (14377943एन अब जेसी 269602एच),
25 सितम्बर 2006/20 अगस्त 2006 *

हवलदार समर बहादुर सिंह (14485515वाई अब जेसी 269603एल), 05 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 *

हवलदार राज कुमार (14477237एफ अब जेसी 269604एन),
14 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी. डी.) के पद में

सूबेदार विजय कुमार समकारीया (जेसी 296962एच), 01 नवम्बर 2006

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टि. आई. एफ. सी.) के पद में

सूबेदार ओमबीर सिंह (जेसी 296844पी), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार विमलेश कुमार (जेसी 296848 एल), 02 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी. डी.) के पद में

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी 298696एन), 10 अक्टूबर 2006/07 जुलाई 2006 *

नायब सूबेदार रथनाकरन के (जेसी 298727एच), 14 अगस्त 2006/08 जुलाई 2006 *

नायब सूबेदार गिरीष चंद्र सिंह (जेसी 297933ए), 27 सितम्बर 2006/21 जुलाई 2006 *

नायब सूबेदार ददन प्रसाद (जेसी 298910एल), 23 सितम्बर 2006/28 जुलाई 2006 *

नायब सूबेदार वेंकटचलम वी (जेसी 298295वाई), 21 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 *

नायब सूबेदार राम आशिष यादव (जेसी 298762एल), 31 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 *

नायब सूबेदार एशवंत (जेसी 298616एल), 10 अक्टूबर 2006/04 सितम्बर 2006 *

नायब सूबेदार सुधांसु शेखर मिश्रा (जेसी 298674पी), 20 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

नायब सूबेदार केन्नेडि के (जेसी 298173पी), 07 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

नायब सूबेदार मुरली पी (जेसी 298111पी), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी 298255एक्स), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी 298562पी), 10 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

नायब सूबेदार सुदेश्वर भारती (जेसी 298606एफ), 17 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

नायब सूबेदार तेज सिंह तंवल (जेसी 298913वाई), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार कमल गुरुंग (जेसी 298981एम), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार मुहम्मद मसुदुर रहमान (जेसी 297934एच), 06 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी 298637एफ), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह (जेसी 298339एल), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार धियागा राजन एल (जेसी 298454एल), 02 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी 298594एक्स), 05 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार गणेशन के (जेसी 298984ए), 06 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार देवेंद्र कुमार झा (जेसी 298033एच), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार अब्बल सिंह (जेसी 298034एल), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार शिशु पाल (जेसी 298036डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार राम फल (जेसी 2982203एफ), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार (जेसी 298172एम), 01 दिसम्बर 2006

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

सत्यपाल शर्मा

अवर सचिव

सं. 106, दिनांक 9 फरवरी 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

स्थाई सेना

पैदल सेना

लद्दाख स्काउट्स

भारत के राजपत्र सं. 194 दिनांक 24 मार्च 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 18 दिनांक मई 01-मई 07, 2004 शीर्षक "नियमित सेना"

उप शीर्षक "इन्फैन्ट्री" और लद्दाख स्काउट्स इन्फैन्ट्री के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

के स्थान पर—सूबेदार डेलडन छुट्टुप (जेसी-588038एम), 28 नवम्बर 2000/01 जून 2000*

पढ़ा जाए—सूबेदार डेलडन छुट्टुप (जेसी-588038एम), 28 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000*

एस. अशरफ
अवर सचिव

सं. 107, दिनांक 12 फरवरी 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

चन्द्रकान्त पानेरी(एम एस-13673-एन)(एम आर-08421एक्स), ए एम सी-01.10.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18.09.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

दिपेन्द्र भूषण (एम एस-13895-एच)(एम आर-08410एल), ए एम सी-11.11.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

विशाल सक्सेना (एम आर-08046एक्स)(75841), ए एम सी-30 दिसम्बर 2004

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

मानव दत्त शर्मा (एम आर-08123एफ)(ए एफ-26503एफ), ए एम सी-21 जनवरी 2006

एस. के. अब्दुल रहिम (एम आर-07629एन)(ए एफ-26479एस), ए एम सी-16 जुलाई 2006

अभिजित श्रीकुमार (एम आर-07649एफ)(ए एफ-26478एन), ए एम सी-16 जुलाई 2006

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

ए जे स्वामी (एम आर-06351एल)(21799), ए एम सी-16 दिसम्बर 2004

अनिल कुमार (एम आर-06510एक्स)(22352), ए एम सी-16 दिसम्बर 2004

सीमा गंभीर (एम आर-07311डब्ल्यू)(23454), ए एम सी-18 सितम्बर 2006

बिन्दु जैन (एम आर-07388एक्स)(23440), ए एम सी-21 अगस्त 2006

नीरज चरक (एम आर-07330एफ)(23443), ए एम सी-29 अगस्त 2006

राजेश कामरन
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 108, दिनांक 12 फरवरी 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

क्रम सं., नाम, आईसी, आर्म और मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगे. हरकिरत सिंह (आईसी-25095), ई एम ई--14.09.2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.08.2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस के मल्होत्रा (आईसी-25416), ए ओ सी--01.07.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.09.2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एस आर घोष, एस एम (आईसी-25434), गार्ड्स--29.03.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.09.2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. कपूर ए के (आईसी-25482), ए ओ सी--01 दिसम्बर 2005

ब्रिगे. वी.एस. शेंक (आईसी-25646), राजपूत--21.05.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18.01.2006 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आमवाल आर एस (आईसी-30248), ई एम ई--24 फरवरी 2006

ब्रिगे. डी वी कालरा (आईसी-30278), सिग्नल--01 जून 2006

कर्नल ए बी एस बरार (आईसी-30805), ई एम ई--01.06.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.05.2005 से दी जाएगी।

कर्नल डिल्लन एच पी एस (आईसी-33682), राजपूत--01 मई 2005

कर्नल ग्रेवाल ए एस (आईसी-33734), मैक इन्फ.--01 मई 2005

कर्नल रसकीना एन एम (आईसी-31087), राजपूत--01 अगस्त 2005

कर्नल माथुर पी सी (आईसी-31129), आर्टी--01 सितम्बर 2005

कर्नल चक्रवर्ती भास्कर (आईसी-31167), ए ए डी--02 सितम्बर 2005

कर्नल मोहन पी आर एन (आईसी-31199), ए एस सी--13 सितम्बर 2005

कर्नल देवगेकर आर के (आईसी-34685), ई एम ई--01.02.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.2005 से दी जाएगी।

कर्नल बिस्ट जी एस (आईसी-34708), सिग्नल--01.01.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.2005 से दी जाएगी।

कर्नल सिंह के पी (आईसी-34737), इंजी.--01.11.2005

कर्नल चोपड़ा यू के (आईसी-33974), सिग्नल--01.02.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.11.2005 से दी जाएगी।

कर्नल चियाना सी एम (आईसी-36007), ए ए डी--01 दिसम्बर 2005

कर्नल आई लंगवान जी (आईसी-36008), एम एल आई--01 फरवरी 2005

कर्नल सिंह पी पी (आईसी-36995), ई एम ई--01.01.2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.12.2005 से दी जाएगी।

कर्नल राणा सुरेन्द्र सिंह (आईसी-36276), आर्टी--01 जनवरी 2006

कर्नल प्रभाकरन सी (आईसी-36287), इन्ट--01 जनवरी 2006

कर्नल पेनुली राकेश मोहन (आईसी-36399), कुमाऊं--20 जनवरी 2006

कर्नल कुमार अमन, वी एस एम (आईसी-31383), आर्टी (जी सी)--01 अप्रैल 2006

कर्नल गुजराल रविन्द्र (आईसी-31386), आर्टी--01 अप्रैल 2006

कर्नल शर्मा बी बी (आईसी-31388), ग्रेन.--01 अप्रैल 2006

कर्नल गुजराल के के (आईसी-35020), सिग्नल--01 जून 2006

कर्नल आर्या के डी (आईसी-35075), सिग्नल--01 जून 2006

एन. के. फूकन
एएमएस/एमएस (एक्स) ८

सं. 109, दिनांक 9 फरवरी 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम और आर्य

38989 सुरेन्द्र सिंह, आर्टी

39009 एस ए खान, इन्फैंट्री

41480 बिश्वाजीत घोष, इन्जी.

31138 आर एस सिरौही, ए सी

एसएल-3902 तेज सिंह बरार, एस एल टी ओ टी

43625 बप्पादित्या धर, एम एफ

--16 दिसम्बर 2004

51179 अनुपम अग्रवाल, ए ए डी

--13 जून 2005

शिव राम बैरवा

उप निदेशक

एम एस 8 सी

सेना शाखा

सं. 110, दिनांक 12 फरवरी 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 22.03.2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

कप्तान दिपेन्द्र भूषण (एम एस-13895एच)(एम आर-08410एल), ए एम सी-11.11.1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10.12.2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 15.06.2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

कप्तान गुरप्रीत सिंह (एम एस-14781के)(एम आर-08403पी), ए एम सी-17.02.2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.09.2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान चन्द्रकान्द पानेरी (एम एस-13673एन)(एम आर-08421एक्स), ए एम सी-01.10.1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.03.2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद पर

तलकटवार मोहन रामराव (एम एस-14224एल)(एम आर-08404एक्स), ए एम सी-03.03.2005 (भारत सरकार के राजपत्र

के दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेन्ट तलकटवार मोहन रामराव (एम एस-14224एल)(एम आर-08404एक्स), ए एम सी-03.03.2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 111, दिनांक 12 फरवरी 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित महिला विशेष प्रवेश योजना अधिकारियों को विशेष थल सेना अनुदेश 11/एस/64, के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है। अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उनकी आयु 40 वर्ष होने तक, दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

क्रम सं.	एस एस सं.	नाम	आर्म्स/सर्विसस	सेवा मुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	एस एस 362201पी	आर पी एस मल्होत्रा	ई एम ई	10 मार्च 2005
2.	एस एस 36333 एक्स	संजय कुमार सिंह	एसी	10 मार्च 2005
3.	एस एस 37021 एन	देवेंद्र सिंह	इंफैं	12 मई 2005
4.	एस एस 37060 एम	विक्रान्त महाजन	इंजीनियर्स	28 जनवरी 2005
5.	एस एस 37699 एफ	वी पी पाठक	इंजीनियर्स	18 फरवरी 2005
6.	एस एस 37424 एन	आर धिनेश कुमार	ई एम ई	31 अक्टूबर 2005
7.	एस एस 37973 एन	सचिन मलिक	सिग्नल्स	01 जुलाई 2005
8.	एस एस 37992 वाई	सोजन जोस	आर्टी	01 फरवरी 2005
9.	एस एस 38036	राजीव पांडेय	आर्टी	16 मई 2005
10.	एस एस 38037 एल	मानस बैश्य	मैक इंफैं	22 मार्च 2005
11.	एस एस 38057 वाई	सुरजीत सिंह	आर्टी	10 अगस्त 2005
12.	एस एस 38164 ए	मोन जेविअर जोसेफ	इंफैं	17 मई 2005
13.	एस एस 38281 एल	विशाल लछमन दोम्बे	ई एम ई	03 मार्च 2005
14.	एस एस 38285 एफ	पराग मापरी चंद्रकांत	इंजीनियर्स	03 मार्च 2005
15.	एस एस 38295 एल	जौली लेजर पारायिल	आर्टी	18 जुलाई 2005
16.	एस एस 38303 वाई	नरेश ठकुर	इंफैं	03 मार्च 2005
17.	एस एस 38314 एल	समीर बेदी	सिग्नल्स	03 मार्च 2005

1	2	3	4	5
18.	एस एस 38347 डब्ल्यू आर एस गिल	इंफैं	03 मार्च 2005	
19.	एस एस 38351 वाई	विनायक हेरलेकर	आर्टी	03 मार्च 2005
20.	एस एस 38363 एन	सोमनाथ चौधरी	इंफैं	15 दिसम्बर 2005
21.	एस एस 38371 एम	अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ	इंफैं	15 नवम्बर 2005
22.	एस एस 38379 वाई	संजय अपगे रक्खामना	मैक इंफैं	03 मार्च 2005
23.	एस एस 38389एच	सचिन कुमार शर्मा	इंफैं	03 मार्च 2005
24.	एस एस 38397 एफ	आर सुब्रामण्यम	इंफैं	03 मार्च 2005
25.	एस एस 38404 एम	मनोज कुमार वर्मा	इंफैं	03 मार्च 2005
26.	एस एस 38409 एल	सुभाष चंद्रा	एसी	30 जुलाई 2005
27.	एस एस 38438 ए	अजित सक्सेना	ए ए डी	03 मार्च 2005
28.	एस एस 38443 एल	राजेश वैद्य	आर्टी	03 मार्च 2005
29.	एस एस 38556 एन	रजत भट्टाचार्य	ई एम ई	01 सितम्बर 2005
30.	एस एस 38559 एफ	वैकट रामानिन	सिग्नल्स	01 सितम्बर 2005
31.	एस एस 38569 एल	श्रुती कांता दास	सिग्नल्स	01 सितम्बर 2005
32.	एस एस 38588 डब्ल्यू	सचिन मोरे	इंजीनियर्स	01 सितम्बर 2005
33.	एस एस 38630 के	रजत सिंह	मैक इंफैं	01 सितम्बर 2005
34.	एस एस 38633 एक्स	एस विजय कुमार	सिग्नल्स	01 सितम्बर 2005
35.	एस एस 38640 एन	रणदीप हुंदल	इंफैं	01 सितम्बर 2005
36.	एस एस 38651 ए	अमित शर्मा	इंफैं	01 सितम्बर 2005
37.	एस एस 38670 एल	असीम साहा	इंफैं	01 सितम्बर 2005
38.	एस एस 38676 एम	विजय एम	इंफैं	01 सितम्बर 2005
39.	एस एस 38689 के	जी के न्हिमो	इंफैं	01 सितम्बर 2005
40.	एस एस 37527 एम	वाई एं खान	आर्टी	30 सितम्बर 2005
41.	एस एस 38716 एच	सिद्धार्थ सिंह राठी	एसी	01 सितम्बर 2005
42.	एस एस 38738 एफ	संजय मुखर्जी	इंफैं	01 सितम्बर 2005
43.	एस एस 37744 एच	एस सी शर्मा	ए ए डी	31 अगस्त 2005
44.	एस एस 38758 पी	लोकेश्वरन पी एस	ई एम ई	01 सितम्बर 2005
45.	एस एस 38762 एक्स	सुरजीत सिंह गिल	इंफैं	01 सितम्बर 2005
46.	एस एस 38778 एच	बी भरनीधरन	आर्टी	01 सितम्बर 2005
47.	एस एस 38798 डब्ल्यू	राज कुमार आदित्य सिंह	इंफैं	01 सितम्बर 2005
48.	एस एस 38805 एफ	महेश कुमार	ए ए डी	01 सितम्बर 2005
49.	एस एस 38813	जे बी शिरादकर	इंटे	01 सितम्बर 2005

एम एल एन श्रवण कुमार

कर्नल

कर्नल एम एस-7

सं. 112, दिनांक 7 फरवरी 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री एम. के. भारद्वाज की अधिवर्षिता की आयु पूरी

होने पर उन्हें 31 जनवरी, 2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. के. देब
अवर सचिव

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

ले. जनरल एम पी जयप्रकाश (एमआर-2250ए) ए वी एस एम एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

ब्रिगेडियर वी आर देशपाण्डे (एमआर-3726एन) एएमसी, पीसी-30 जून 2006 (अप.)

ब्रिगेडियर एस मुखर्जी, वी एस एम (एमआर-4449ए) एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

ब्रिगेडियर डी एस शेखावत (एमआर-4683डब्ल्यू) एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

ब्रिगेडियर के आर सराफ (एमआर-4454एल) एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

ब्रिगेडियर एस चौधरी (एमआर-4616एल) एएमसी, पीसी-31 मई जून 2006 (अप.)

कर्नल आर के बाजपेयी (एमआर-3177वाई) एएमसी, पीसी-31 जनवरी 2006 (अप.)

कर्नल ए के मुखर्जी (एमआर-3567एफ) एएमसी, पीसी-31 जनवरी 2006 (अप.)

कर्नल एस सी गुप्ता (एमआर-3622एम) एएमसी, पीसी-28 फरवरी 2006 (अप.)

कर्नल एच एस द्रविड (एमआर-3553एफ) एएमसी, पीसी-30 अप्रैल 2006 (अप.)

कर्नल पी इस्साक (एमआर-4025के) एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

कर्नल के आर एस नायर (एनटीआर-16481एफ) एएमसी, पीसी-31 मई 2006 (अप.)

ले. कर्नल आर एस राना (एनटीआर-16567एन) एएमसी, पीसी-30 जून 2006 (अप.)

ले. जनरल रामजी राय, एवीएसएम वीएसएम एवं पीएचएस (एमआर-2064के) एएमसी, पीसी-30 सितम्बर 2005 (अप.)

मेजर जनरल ए चट्टोपाध्याय (एमआर-3267ए) एएमसी, पीसी-30 सितम्बर 2005 (अप.)

ब्रिगेडियर सुरजीत सिंह (एमआर-4821एन) एएमसी, पीसी-31 अगस्त 2005 (अप.)

ब्रिगेडियर बी के सिंह (एमआर-4457वाई) एएमसी, पीसी-30 अगस्त 2005 (अप.)

ब्रिगेडियर आर कपूर (एमआर-3315पी) एएमसी, पीसी-30 अगस्त 2005 (अप.)

ब्रिगेडियर एस एस जोग (एमआर-2879एल) एएमसी, पीसी-31 मार्च 2005 (अप.)

ब्रिगेडियर पी एल गुप्ता (एमआर-3646डब्ल्यू) एएमसी, पीसी-30 अक्टूबर 2005 (अप.)

कर्नल एस सी मोहन्ती (एमआर-4684वाई) एएमसी, पीसी-30 जून 2005 (अप.)

कर्नल एस मोहन (एमआर-2776एम) एएमसी, पीसी-31 अगस्त 2005 (अप.)

कर्नल ए के मालवीय (एमआर-3016डब्ल्यू) एएमसी, पीसी-31 अगस्त 2005 (अप.)

कर्नल एन एस पवार (एमआर-3612एच) एएमसी, पीसी-30 सितम्बर 2005 (अप.)

ले. कर्नल सी टी अरासू (एनटीआर-16418एम) एएमसी, पीसी-30 सितम्बर 2005 (अप.)

कर्नल एस सभलोक (एमआर-3270ए) एएमसी, पीसी-31 दिसम्बर 2005 (अप.)

कर्नल एल डी शर्मा (एमआर-3269एल) एएमसी, पीसी-31 अक्टूबर 2005 (अप.)

कर्नल पी सी शर्मा (एमआर-4469एन) एएमसी, पीसी-30 अक्टूबर 2005 (अप.)

कर्नल के आर नायर (एमआर-2666एक्स) एएमसी, पीसी-30 नवम्बर 2005 (अप.)

ले. कर्नल के के स्वामी (एमआर-3621) एएमसी, पीसी-31 अगस्त 2005 (अप.)

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 114, दिनांक 8 फरवरी 2007--22 अक्टूबर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना में शीर्षक अल्पकालीन कमीशन तथा उप शीर्षक "परखाधीन लेफ्टिनेंट के रैंक में" निम्नलिखित

अल्पकालीन सेवा अधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

परखाधीन लेफ्टिनेंट के रैंक में--के स्थान पर

विपुल कुमार सिंह (वी एस-1101ए), आर वी सी-20 जून 2005
 दिनेश नागर (वी एस-1102एच), आर वी सी-20 जून 2005
 सुधीश एस नायर (वी एस-1103एल), आर वी सी-20 जून 2005
 जेसजिथ पी (वी एस-1104एन), आर वी सी-20 जून 2005
 विंसन डेनियल अब्राहम सी (वी एस-1105डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 एन बाबू (वी एस-1106वाई), आर वी सी-20 जून 2005
 क्रिशनैदू कुंडू (वी एस-1107एफ), आर वी सी-20 जून 2005
 एस सुबीश (वी एस-1108के), आर वी सी-20 जून 2005
 फर्नांडिस रिचमार्क इग्नी (वी एस-1109एम), आर वी सी-20 जून 2005
 नवनीत जोशी (वी एस-1110एफ), आर वी सी-20 जून 2005
 मनीष कुमार (वी एस-1111के), आर वी सी-20 जून 2005
 प्रशान्त त्रिपाठी (वी एस-1112एम), आर वी सी-20 जून 2005
 संजीथ बी एस (वी एस-1113पी), आर वी सी-20 जून 2005
 अनीष ऐंटेनी (वी एस-1114एक्स), आर वी सी-20 जून 2005
 दीपक इ वी (वी एस-1115ए), आर वी सी-20 जून 2005
 डोडप्पा हुगड़ (वी एस-1116एच), आर वी सी-20 जून 2005
 राजेन्द्र सिंह यादव (वी एस-1117एल), आर वी सी-20 जून 2005
 मुकेश कुमार पती (वी एस-1118एन), आर वी सी-20 जून 2005
 वी कमलराज (वी एस-1119डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 फॉसटिन जॉय (वी एस-1120एल), आर वी सी-20 जून 2005
 नोबल टी जॉर्ज (वी एस-1121एन), आर वी सी-20 जून 2005
 फिलिप वारधीज़ (वी एस-1122डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 राहुल बाबूलाल डांगे (वी एस-1123वाई), आर वी सी-20 जून 2005

परखाधीन कप्तान के रैंक में--पढ़ा जाये

विपुल कुमार सिंह (वी एस-1101ए), आर वी सी-20 जून 2005
 दिनेश नागर (वी एस-1102एच), आर वी सी-20 जून 2005
 सुधीश एस नायर (वी एस-1103एल), आर वी सी-20 जून 2005
 जेसजिथ पी (वी एस-1104एन), आर वी सी-20 जून 2005
 विंसन डेनियल अब्राहम सी (वी एस-1105डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 एन बाबू (वी एस-1106वाई), आर वी सी-20 जून 2005
 क्रिशनैदू कुंडू (वी एस-1107एफ), आर वी सी-20 जून 2005
 एस सुबीश (वी एस-1108के), आर वी सी-20 जून 2005
 फर्नांडिस रिचमार्क इग्नी (वी एस-1109एम), आर वी सी-20 जून 2005
 नवनीत जोशी (वी एस-1110एफ), आर वी सी-20 जून 2005
 मनीष कुमार (वी एस-1111के), आर वी सी-20 जून 2005
 प्रशान्त त्रिपाठी (वी एस-1112एम), आर वी सी-20 जून 2005
 संजीथ बी एस (वी एस-1113पी), आर वी सी-20 जून 2005
 अनीष ऐंटेनी (वी एस-1114एक्स), आर वी सी-20 जून 2005
 दीपक इ वी (वी एस-1115ए), आर वी सी-20 जून 2005
 डोडप्पा हुगड़ (वी एस-1116एच), आर वी सी-20 जून 2005
 राजेन्द्र सिंह यादव (वी एस-1117एल), आर वी सी-20 जून 2005
 मुकेश कुमार पती (वी एस-1118एन), आर वी सी-20 जून 2005
 वी कमलराज (वी एस-1119डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 फॉसटिन जॉय (वी एस-1120एल), आर वी सी-20 जून 2005
 नोबल टी जॉर्ज (वी एस-1121एन), आर वी सी-20 जून 2005
 फिलिप वारधीज़ (वी एस-1122डब्ल्यू), आर वी सी-20 जून 2005
 राहुल बाबूलाल डांगे (वी एस-1123वाई), आर वी सी-20 जून 2005

सत्यपाल शर्मा
 अवर सचिव

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

New Delhi, the 3rd March 2007

No. 102, dated 7th February 2007.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officer Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rule 2001 from 24 Feb 2006 to 23 Aug 2006 or till a regular incumbent become available or till retire whichever is earlier :—

- (a) Smt. Radha G. Nair
- (b) Sh. Dev Raj
- (c) Sh. Duli Chand
- (d) Sh. Raghu Raj Singh
- (e) Sh. Perma Nand Sharma
- (f) Sh. G. S. Verma
- (g) Sh. Dharam Raj Sharma
- (h) Sh. Ramesh Chand Hashwani
- (i) Sh. Shankar Bose
- (j) Smt. S. K. Kapoor
- (k) Sh. Mohinder Singh
- (l) Sh. Ram Kumar

(Authority :—A/47922/SO/7(8)/2006/CAO/P-1/08 dated 28 Feb 2006

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer(A)

ARMY BRANCH

No. 103, dated 8th February 2007.—The President is pleased to re-employ the under-mentioned JCOs on active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY
DEFENCE SECURITY CORPS
In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Dalbir Singh (JC-216651K), Formerly The JAK Rif, 08 Apr 2006

Subedar Major Joginder Singh (JC-428088Y), Formerly The Punjab Regt, 08 Apr 2006

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Balbir Singh (JC-661084M), Formerly ASC, 08 Oct 2005

Subedar Bahadur Singh (JC-402340P), Formerly Brigade of the Guards, 08 Apr 2006

Subedar Birbal Singh (JC-402336M), Formerly Brigade of the Guards, 08 Apr 2006

Subedar Sis Pal (JC-488445A), Formerly The Jat Regt, 08 Apr 2006

Subedar Narendra Singh (JC-203674M), Formerly The Mech Inf Regt, 08 Apr 2006

Subedar Gokul Chand (JC-478491F), Formerly The Rajput Regt, 08 Apr 2006

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Subedar Bajarang Singh Shekhawat (JC-468542W), Formerly The Raj Rif, 08 Apr 2006

Nb Subedar Romesh Kumar (JC-428770W), Formerly The Punjab Regt, 08 Apr 2006

Nb Subedar Samunder Singh (JC-237795A), Formerly The Armourd Corps, 08 Apr 2006

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No.104, dated 7th February 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Naib Subedar

Hav Baidya Nath Ghosh (No. 9509967A now JC-803830H), 27 Feb 2006.@

Hav Dadi Venkata Ramana Rao (No. 9509991W now JC-803841P), 01 Jan 2006

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and Allowances)

Hav Narender Kumar Sharma (No. 9509137K now JC-803860A), 29 Mar 2006#

Hav Chinmaya Ranjan Parija (No. 9509955L now JC-803865Y), 05 Apr 2006#

Hav Ashok Kumar Singh (No. 9510004A now JC-803866F), 22 Mar 2006#

Hav P Sai Mohan (No. 9510027F now JC-803871M), 05 Apr 2006#

#(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 06 without effect on pay and Allowances)

Hav Bimal Kant (No. 9510040L now JC-803877N), 03 Apr 2006\$

Hav Anil Kumar Mishra (No. 9510044F now JC-803880N), 01 Apr 2006

Hav Bhim Singh (No. 9510045K now JC-803881W), 01 Apr 2006

Hav Yogendra Singh (No. 9510049A now JC-803885M), 01 Apr 2006

Hav Brijender Abrol (No. 9510056W now JC-803889H), 05 Apr 2006\$

Hav Vinod Kumar Singh (No. 9510057Y now JC-803890X), 01 Apr 2006

Hav Vijaya Kumar (No. 9510059K now JC-803892H),
01 Apr 2006

\$(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef
01 Apr 2006 without effect on pay and Allowances)

Hav Budhi Ballabh Dimri (No. 9510061N now
JC-803894N), 01 May 2006

Hav Raj Bahadur (No. 9510064P now JC-803895W),
01 May 2006

Hav Shiv Shanker Singh (No. 9510067H now JC-803897F),
01 May 2006

Hav Satyavan (No. 9510069N now JC-803899M),
01 May 2006

Hav Satish Kumar (No. 9510072N now JC-803900W),
01 May 2006

Hav Ram Bir (No. 9510073W now JC-803901Y),
01 May 2006

Hav Kumar Sahab (No. 9510075F now JC-803903K),
01 May 2006

Hav Manoj Kumar Jha (No. 9510079X now JC-803905P),
01 May 2006

V. K. KAPOOR
Under Secy.

No. 105, date 8th February 2007.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sital Singh (JC-263080F), 03 Sep 2005

Nb Sub Sunder Lal Yadav (JC-265499L), 24 Jun 2006/
07 Apr 2006*

Nb Sub Gurbax Singh (JC-264939F), 01 Jun 2006

Nb Sub Kushal Singh (JC-265639M), 12 Aug 2006/
01 Jun 2006*

Nb Sub Ajit Kumar Gogoi (JC-267204H), 05 Nov 2006/
01 Aug 2006*

Nb Sub Ved Singh (JC-267302H), 19 Nov 2006/
25 Aug 2006*

Nb Sub Chain Singh (JC-267494L), 07 Nov 2006/
25 Aug 2006*

Nb Sub Jora Ram (JC-267458A), 24 Oct 2006/
01 Sep 2006*

Nb Sub Baljit (JC-265665N), 01 Oct 2006

Nb Sub K. Raja (JC-265981M), 13 Nov 2006/
01 Oct 2006*

Nb Sub Hari Singh Yadav (JC-267223N), 27 Oct 2006/
01 Oct 2006*

Nb Sub Malkhan Singh (JC-265785M), 29 Dec 2006/
01 Nov 2006*

Nb Sub Sagat Singh (JC-267156N), 01 Nov 2006

Nb Sub Mahendra Nath Rai (JC-265708X), 28 Dec 2006/
01 Nov 2006*

Nb Sub Basanta Ram Gurjar (JC-265109X), 18 Nov 2006/
01 Jun 2006*

Nb Sub Dharam Pal (JC-265806X), 16 Nov 2006/01 Jul 2006*

Nb Sub Rabindra Nath Pradhan (JC-267722H), 16 Nov
2006/12 Aug 2006*

Nb Sub Sucha Singh (JC-265677H), 05 Nov 2006/29 Aug
2006*

Nb Sub Gurdhian Singh (JC-268058A), 01 Nov 2006/
01 Oct 2006*

Nb Sub Sat Paul (JC-266760M), 18 Nov 2006/30 Aug 2006*

Nb Sub Mast Ram (JC-267032Y), 18 Nov 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Kirpal Singh (JC-266935K), 05 Nov 2006/31 Aug
2006*

Nb Sub Md Sahabuddin SK (JC-266845H), 03 Oct 2006/
01 Oct 2006*

Nb Sub Satyendra Bahadur Singh (JC-265676A), 11 Nov
2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Ramachandran V (JC-265669K), 11 Nov 2006/01
Oct 2006*

Nb Sub Jugmandara Singh (JC-265444F), 09 Nov 2006/01
Jul 2006*

Nb Sub Shri Bhagwan (JC-267949W), 19 Oct 2006/
01 Oct 2006*

Nb Sub Soji Ram Meena (JC-267254N), 20 Nov 2006/
17 Aug 2006*

Nb Sub Upendra Palai (JC-265595A), 18 Nov 2006/28 Aug
2006*

Nb Sub Raveendran Nair R (JC-266635H), 01 Nov 2006/
20 Aug 2006*

To be Nb Sub

BHM Surendra Kumar Tripathi (No. 14498069F now JC-
269573Y), 08 Jul 2006/01 Aug 2004*

Hav Madan Mohan Mishra (No. 14361422W now JC-
269574F), 17 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Dara Singh (No. 14479032L now JC-269575K),
27 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Bahadar Singh (No. 14481752L now JC-269576M),
27 Jun 2006/20 Apr 2006*

BHM Narayan Singh (No. 14368598K now JC-269577P),
09 Aug 2006/01 Jun 2006*

BHM Bhag Singh (No. 14491147L now JC-269578X),
27 Jun 2006/01 Jun 2006*

Hav Bahadur Singh (No. 14367123N now JC-269579A),
05 Aug 2006/08 Jun 2006*

Hav Jagir Singh (No. 14496400L now JC-269580P), 17 Jul
2006/01 Jul 2006*

Hav Sagar Singh (No. 14368121P now JC-269581X),
16 Aug 2006/16 Jul 2006*

Hav Jose VO (No. 14495181H now JC-269582A), 20 Sep
2006/01 Aug 2006*

Hav Birendra Nath Ghosh (No. 14478888K now JC-
269583H), 28 Sep 2006/24 Aug 2006*

Hav Madan Lal (No. 14361358K now JC-269584L),
04 Sep 2006/01 Sep 2006*

Hav Man Singh (No. 14364652P now JC-269585N), 01 Sep
2006

Hav Gurpal Singh (No. 14482653P now JC-269586W),
01 Nov 2006/01 Sep 2006*

Hav Ranjit Singh (No. 14496005X now JC-269587Y),
01 Nov 2006/01 Oct 2006*

Hav Jagdish Singh (No. 14481839M now JC-269588P),
01 Nov 2006

Hav Narayan Ram (No. 14388248Y now JC-269491W),
12 Sep 2006/01 Feb 2006*

Hav Gurbachan Singh (No. 14364439P now JC-269492Y),
13 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Virendra Pal (No. 14396849Y now JC-269493F), 15 May
2006/24 Mar 2006*

RHM Ananda KD (No. 14365004Y now JC-269494K),
05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Pandurang Pishte (No. 14478094Y now JC-269495M),
07 Aug 2006/01 Apr 2006*

Hav Kuldeep Singh (No. 15104197A now JC-269496P),
18 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Radha Krishna Pillai P (No. 14496879L now JC-
269497X), 27 Jun 2006/07 Apr 2006*

Hav Satpal Singh (No. 14486513A now JC-269498A), 15
Jun 2006/19 Apr 2006*

Hav Vijay Kumar (No. 14474473Y now JC-269499H), 22
May 2006/28 Apr 2006*

RHM Karna Ram (No. 14480475Y now JC-269500M), 31 Jul
2006/24 May 2006*

Hav Ram Pal Verma (No. 14361800K now JC-269501P), 23
Sep 2006/20 Jun 2006*

Hav Vijay Kumar (No. 14479802M now JC-269502X), 29
Aug 2006/01 Jul 2006*

RHM Ram Chandra Singh (No. 14384174X now JC-
269503A), 04 Sep 2006/30 Jul 2006*

RHM Nawab Singh (No. 14472129N now JC-269504H),
30 Aug 2006/31 Jul 2006*

Hav Abbas Miya (No. 14479990Y now JC-269505L),
17 Aug 2006/01 Aug 2006*

RHM Puran Chandra Niyolia (No. 14495280L now JC-
269506N), 22 Sep 2006/01 Sep 2006*

Hav Shinde Balu Pandari Nath (No. 14392684N now
JC-269507W), 28 Sep 2006/01 Sep 2006*

BHM Satvir Singh (No. 14363999P now JC-269508Y),
22 Sep 2006/01 Sep 2006*

BHM Rohtas (No. 14368459A now JC-269509F), 03 Oct
2006/01 Oct 2006*

Hav Dhole Dnyaneshwar Champat Rao (No. 15109528N
now JC-269510W), 06 Mar 2006/29 Nov 2005*

Hav Krishan Dev Chandel (No. 14476201W now
JC-269511Y), 03 Aug 2006/17 Feb 2006*

Hav Ranvir Singh Chauhan (No. 13889501N now
JC-269512F), 01 Apr 2006/25 Feb 2006*

BHM Aram Singh (No. 14471479N now JC-269513K),
03 Jun 2006/01 Mar 2006*

Hav Joginder Lal (No. 14397031W now JC-269514M),
25 Jul 2006/26 Jun 2006*

Hav Krishna Murthy KY (No. 14479308W now
JC-269515P), 28 Jul 2006/01 Jul 2006*

RHM Parshotam Singh (No. 14485845X now JC-
269516X), 11 Sep 2006/01 Jul 2006*

Hav Hridaya Lal Shukla (No. 14368169H now JC-
269517A), 29 Jul 2006/11 Jul 2006*

Hav Helakar Prakash Satyapa (No. 14490220W now
JC-269518H), 29 Aug 2006/16 Jul 2006*

Hav Karnail Singh (No. 14494179Y now JC-269519L),
10 Sep 2006/01 Aug 2006*

Hav Surender Kumar (No. 14490025P now JC-269520A),
07 Sep 2006/01 Aug 2006*

Hav Kumar V (No. 15109844Y now JC-269521H),
15 Sep 2006/01 Aug 2006*

Hav Sharmeshwar Singh (No. 15106928F now JC-269522L),
01 Aug 2006

RHM Rajesh Kumar Bhardwaj (No. 14398107X now
JC-269523N), 06 Sep 2006/04 Aug 2006*

BHM Lokendra Singh (No. 14363547M now JC-
269524W), 03 Oct 2006/14 Aug 2006*

Hav Rajendra Balkrishna Bawankule (No. 14392201L
now JC-269525Y), 01 Sep 2006

Hav Kaushal Kishor Singh (No. 14478907K now
JC-269457W), 19 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Lakhwinder Singh (No. 14365518W now JC-269458Y),
12 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Bijendra Singh (No. 14367148A now JC-269459F), 15
Jun 2006/19 Mar 2006*

Hav Surya Nath Singh (No. 14478917N now JC-269460W),
15 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Jagat Narayan (No. 14470088W now JC-269461Y), 30
May 2006/01 Apr 2006*

Hav Mahesh Chand (No. 14479039P now JC-269462F),
15 Jun 2006/01 May 2006*

Hav Pradip Singh Bhadoria (No. 14398243N now JC-
269463K), 11 Aug 2006/08 May 2006*

BHM Ouseph CJ (No. 14477723Y now JC-269464M),
15 Jun 2006/14 May 2006*

Hav Sheikh Alloudin Mohudin Sab (No. 14362454L
now JC-269465P), 09 Jun 2006/01 Jun 2006*

BHM Deep Raj (No. 14480460W now JC-269466X),
01 Jun 2006

Hav Babu Lal (No. 13889367N now JC-269467A),
02 Jul 2006/01 Jul 2006*

Hav Ganesh Dass (No. 14366282Y now JC-269468H),
18 Jul 2006/01 Jul 2006*

Hav Man Singh (No. 14479561X now JC-269469L),
01 Aug 2006/01 Jul 2006*

Hav Ananda Mallik (No. 15103868M now JC-269470A),
02 Aug 2006/13 Jul 2006*

Hav Dhanaji Hadabe (No. 14378724Y now JC-269471H),
01 Aug 2006

Hav Abdul Kareem M (No. 14482435W now JC-269472L),
01 Aug 2006

Hav Surnod Kumar (No. 14492501F now JC-269526F),
31 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Shiv Nath Singh Behgel (No. 14480823P now JC-
269527K), 13 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Sahadev Singh (No. 14366158X now JC-269528M),
15 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Bachan Singh (No. 14479776W now JC-269529P),
17 Jun 2006/01 May 2006*

BHM Mahesh Chandra (No. 14366123F now JC-
269530K), 11 Jun 2006/22 May 2006*

Hav Dal Singh (No. 14363042W now JC-269531M),
01 Sep 2006/01 Jun 2006*

BHM Babu Lal (No. 14374499X now JC-269532P),
04 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Kulbir Singh (No. 14373240P now JC-269533X),
30 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Lakshmanan C (No. 14480322P now JC-269534A),
30 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Bhagwant Singh (No. 14399805M now JC-269535H),
15 Sep 2006/01 Jun 2006*

Hav BK Somasekhara Reddy (No. 14376913K now JC-
269536L), 03 Jul 2006/13 Jun 2006*

Hav Dudh Nath Singh (No. 14485539H now JC-
269537N), 13 Oct 2006/16 Jul 2006*

BHM Thankachan J (No. 14478771L now JC-269538W),
03 Oct 2006/18 Aug 2006*

BHM Anil Kumar (No. 14475784X now JC-269539Y),
17 Jun 2006/01 May 2006*

Hav Videsh Kumar (No. 14479584Y now JC-269540N),
28 Sep 2006/01 Sep 2006*

Hav Sete Kumar Rana (No. 14481620X now JC-
269589K), 02 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Jangir Singh (No. 15110080X now JC-269590Y),
26 Jun 2006/25 Mar 2006*

Hav Dasrath Changu Lokhande (No. 14480927W now
JC-269591F), 28 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Chebrolu Jesuva (No. 14353140H now JC-269592K),
26 May 2006/01 May 2006*

Hav Chamkaur Singh (No. 14477221W now JC-
269593M), 24 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Kanwar Pal Singh (No. 14367195X now JC-
269594P), 31 Jul 2006/26 Jun 2006*

Hav Narpal Singh (No. 14388221F now JC-269595X),
03 Oct 2006/01 Jul 2006*

Hav Subeh Singh Yadav (No. 14493034F now JC-
269596A), 31 Jul 2006/01 Jul 2006*

Hav Gopala Krishnan K (No. 14396723Y now JC-
269597H), 04 Sep 2006/08 Jul 2006*

Hav Sanjeev Gurang (No. 14400908A now JC-269598L),
07 Aug 2006/12 Jul 2006*

BHM Subramany G (No. 15100291M now JC-269599N),
17 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Wazir Singh (No. 14486472F now JC-269600X),
14 Sep 2006/02 Aug 2006*

Hav P Elumalai (No. 14370541N now JC-269601A),
29 Aug 2006/03 Aug 2006*

Hav Baldev Singh (No. 14377943N now JC-269602H),
25 Sep 2006/20 Aug 2006*

Hav Samar Bhadur Singh Baghel (No. 14485515Y now
JC-269603L), 05 Oct 2006/01 Sep 2006*

Hav Raj Kumar (No. 14477237F now JC-269604N),
14 Oct 2006/01 Oct 2006*

*(Gtd Seniority wef)

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Vijay Kumar Samkaria (JC-296962H), 01 Nov 2006

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Sub Ombir Singh (JC-296844P), 01 Dec 2006

Sub Virmlsh Kumar (JC-296848L), 02 Dec 2006/01 Dec 2006*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Satya Prakash (JC-298696N), 10 Oct 2006/07 July 2006*

Nb Sub Rathnakaran K (JC-298727H), 14 Aug 2006/08 July 2006*

Nb Sub Girish Chander Singh (JC-297933A), 27 Sep 2006/21 Jul 2006*

Nb Sub Dedan Prasad (JC-298910L), 23 Sep 2006/28 Jul 2006*

Nb Sub Venkatachalam V (JC-298295Y), 21 Sep 2006/01 Sep 2006*

Nb Sub Ram Ashish Yadav (JC-298762L), 31 Oct 2006/01 Sep 2006*

Nb Sub Eshawant (JC-298616L), 10 Oct 2006/04 Sep 2006*

Nb Sub Sudhansu Shekhar Misra (JC-298674P), 20 Oct 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Kennedy K (JC-298173P), 07 Oct 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Murali P (JC-298111P), 01 Nov 2006

Nb Sub Ajit Singh (JC-298255X), 01 Nov 2006

Nb Sub Mangal Singh (JC-298562P), 10 Nov 2006/01 Nov 2006*

Nb Sub Sudeshwar Bharti (JC-298606F), 17 Nov 2006/01 Nov 2006*

Nb Sub Tej Singh Tanwal (JC-298913Y), 01 Nov 2006

Nb Sub Kamal Gurung (JC-298981M), 01 Nov 2006

Nb Sub Muhammad Masudur Rahman (JC-297934H), 06 Dec 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Jai Singh (JC-298637F), 01 Dec 2006

Nb Sub Harender Singh (JC-298339L), 01 Dec 2006

Nb Sub Thiyaga Rajan L (JC-298454L), 02 Dec 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Raghuvir Singh (JC-298594X), 05 Dec 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Ganeshan K (JC-298984A), 06 Dec 2006/01 Dec 2006*

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Devendra Kumar Jha (JC-298033H), 01 Dec 2006

Nb Sub Abbal Singh (JC-298034L), 01 Dec 2006

Nb Sub Shishu Pal (JC-298036W), 01 Dec 2006

Nb Sub Ram Phal (JC-298220F), 01 Dec 2006

Nb Sub Surinder Kumar (JC-298172M), 01 Dec 2006

*(Gtd ante-date seniority wef)

S. P. SHARMA

Under Secy.

No. 106, dated 09 February 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

LADAKH SCOUTS

In Ministry of Defence Notification No. 194 dated 24 Mar 2004 published in Gazette of India No. 18 dated 01 May-07 May 2004 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Ladakh Scouts' below to be Subedars (GD) on Page No. 541

For JC 588038M, Sub Deldan Chhutup 28 Nov 2000/01 June 2000*

Read JC-588038M, Sub Deldan Chhutup, 28 Nov 2000/01 Nov 2000*

*(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances)

S. ASHRAF

Under Secy.

No. 107, dated 12 February 2007.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against them :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Chandrakant Paneri (MS-13673N) (MR-08421X), AMC, 01 Oct 2003,

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 Sep 2004 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dipendra Bhushan (MS-13895H) (MR-08410L), AMC, 11 Nov 2003,

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 15 Apr 2006 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg LT

Surg Lt Vishal Saxena (MR-08046X)(75841), AMC, 30 Dec 2004

Flt Lt to be Sqn Ldr

Manav Dutt Sharma (MR-08123F) (AF-26503F), AMC,
21 Jan 2006

SK Abdul Raheem (MR-07629N) (AF-26479S), AMC,
16 Jul 2006

Abhijith Sri Kumar (MR-07649F) (AF-26478N), AMC,
16 Jul 2006

Sqn Ldr to be Wg Cdr

AJ Swamy (MR-06351L) (AF-21799), AMC, 16 Dec 2004

Anil Kumar (MR-06510X) (AF-22352), AMC, 16 Dec 2004

Seema Gambhir (MR-07311W) (AF-23454), AMC, 18 Sep
2006

(Mrs.) Bindu Jain (MR-07388X) (AF-23440), AMC, 21 Aug
2006

(Mrs.) Neeraj Charak (MR-07330F) (AF-23443), AMC,
29 Aug 2006

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 108, dated 12 February 2007.—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

Rank, Name, IC No., Arm and D.O. Subs Maj Gen

Brig Harkirat Singh (IC-25095), EME, 14 Sep 2005 with
seniority from 01 Aug 2005 without effect on pay and pen-
sion.

Brig SK Malhotra (IC-25416), AOC, 01 Jul 2006 with se-
niority from 01 Sep 2005 without effect on pay and pension.

Brig SR Ghosh, SM (IC-25434), Guards, 29 Mar 2006 with
seniority from 01 Sep 2005 without effect on pay and pen-
sion.

Brig Kapur AK (IC-25482), AOC, 01 Dec 2005

Brig VS Tonk (IC-25646), Rajput, 21 May 2006 with senior-
ity from 18 Jan 2006 without effect on pay and pension.

Brig Jamwal RS (IC-30248), EME, 24 Feb 2006

Brig DV Kalra (IC-30278), Sigs, 01 June 2006

To be Substantive Brigadier

Rank, Name, IC No., Arm and D.O. Subs Brig

Col ABS Brar (IC-30805), EME, 01 June 2006 with seniority
from 01 May 2005 without effect on pay and pension

Col Dhillon HPS (IC-33682), Rajput, 01 May 2005

Col Grewal AS (IC-33734), Mech Inf, 01 May 2005

Col Rasquinha NM (IC-31087), Rajput, 01 Aug 2005

Col Mathur PC (IC-31129), Arty, 01 Sep 2005

Col Chakravarty Bhaskar (IC-31167), AAD, 02 Sep 2005

Col Mohan PRN (IC-31199), ASC, 13 Sep 2005

Col Degveker RK (IC-34685), EME, 01 Feb 2006 with se-
niority from 01 Nov 2005 without effect on pay and pension

Col Bisht GS (IC-34708), Sigs, 01 Jan 2006 with seniority
from 01 Nov 2005 without effect on pay and pension

Col Singh KP (IC-34737), Engrs, 01 Nov 2005

Col Chopra UK (IC-33974), Sigs, 01 Feb 2006 with senior-
ity from 01 Nov 2005 without effect on pay and pension

Col Cheeyana CM (IC-36007), AAD, 01 Dec 2005

Col Ilangoan G (IC-36008), MLI, 01 Dec 2005

Col Singh PP (IC-36995), EME, 01 Jan 2006 with seniority
from 01 Dec 2005 without effect on pay and pension.

Col Rana Surender Singh (IC-36276), Arty, 01 Jan 2006

Col Prabhakaran C (IC-36287), Int, 01 Jan 2006

Col Painuly Rakesh Mohan (IC-36399), Kumaon, 20 Jan
2006

Col Kumar Abhay, VSM (IC-31383), Arty(GC), 01 Apr 2006

Col Gujral Ravinder Singh (IC-31386), Arty, 01 Apr 2006

Col Sharma BB (IC-31388), Gren, 01 Apr 2006

Col Gujral KK (IC-35020), Sigs, 01 June 2006

Col Arya KD (IC-35075), Sigs, 01 June 2006

NK PHUKAN
JtDir/MS(X)

No. 109, dated 09 February 2007.—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col (TS) To Lt Col

Name, IC No. and Arm

Surender Singh (38989), Arty

SA Khan (39009), Inf

—16 Dec 2004

Maj to Lt Col

Bishwajeet Ghosh (41480), Engrs

RS Sirohi (31138), AC

Tej Singh Brar (SL-03902), SI TOT

Bappaditya Dhar (43625), MF

—16 Dec 2004

Anupam Agarwal (51179), AAD

-13 Jun 2005

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir.

MS 8C

ARMY BRANCH

No. 110, dated 12 February 2007.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 22 Mar 2005 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date Under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Capt Dipendra Bhushan (MS-13895H) (MR-08410L), AMC, 11 Nov 1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 15 Jun 2006 and to grant them Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date Under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Capt Gurpreet Singh (MS-14781K) (MR-08403M), AMC, 17 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

Capt Chandrakant Paneri (MS-13673N) (MR-08421X), AMC, 01 Oct 1999.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Mar 2002 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Telkatwar Mohan Ramrao (MS-14224L) (MR-08404X), AMC, 03 Mar 2005.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 15 Apr 2006 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt

Surg Lt Telkatwar Mohan Ramrao (MS-14224L) (MR-08404X), AMC, 03 Mar 2001.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAFMS(Pers)

ARMY BRANCH

No. 111, dated 12 February 2007.—The President is pleased to release the under-mentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (Class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or upto the age of 40 years whichever is earlier :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Name, SS. No., Arms/Services and Date of Release

RPS Malhotra (SS-36220P), EME, 10 Mar 2005

Sanjay Kumar Singh (SS-36333X), AC, 10 Mar 2005

Devender Singh (SS-37021N), Inf, 28 Jan 2005

Vikrant Mahajan (SS-37060M), Engrs, 12 May 2005

VP Pathak (SS-37699F), Engrs, 18 Feb 2005

R Dhinesh Kumar (SS-37424N), EME, 31 Oct 2005

Sachin Malik (SS-37973N), Sigs, 01 Jul 2005

Sojan Jose (SS-37992Y), Arty, 01 Feb 2005

Rajeev Pandey (SS-38036), Arty, 16 May 2005

Manas Baisya (SS-38037L), Mech/Inf, 22 Mar 2005

Surjeet Singh (SS-38057Y), Arty, 10 Aug 2005

Mon Xavier Joseph (SS-38164A), Inf, 17 May 2005

Vishal Laxman Dombe (SS-38281L), EME, 03 Mar 2005

Parag Mapari Chandrakant (SS-38285F), Engrs, 03 Mar 2005

Jolly Lazar Parayil (SS-38295L), Arty, 18 Jul 2005

Naresh Thakur (SS-38303Y), Inf, 03 Mar 2005

Sameer Bedi (SS-38314L), Sigs, 03 Mar 2005

RS Gill (SS-38347W), Inf, 03 Mar 2005

Vinayak Herlekar (SS-38351Y), Arty, 03 Mar 2005

Somnath Chowdhury (SS-38363N), Inf, 15 Dec 2005

Atul Kumar Kulshrestha (SS-38371M), Inf, 15 Nov 2005

Sanjay Apage Rakhamana (SS-38379Y), Mech Inf, 03 Mar 2005

Sachin Kumar Sharma (SS-38389H), Inf, 03 Mar 2005

R Subramanyam (SS-38397F), Inf, 03 Mar 2005

Manoj Kumar Verma (SS-38404M), Inf, 03 Mar 2005

Subhash Chandra (SS-38409L), AC, 30 Jul 2005

Ajit Saxena (SS-38438A), AAD, 03 Mar 2005

Rajesh Vaid (SS-38443L), Arty, 03 Mar 2005

Rajat Bhattacharjee (SS-38556N), EME, 01 Sep 2005

Venkat Ramanin (SS-38559F), Sigs, 01 Sep 2005
 Shruti Kanta Dash (SS-38569L), Sigs, 01 Sep 2005
 Schin More A (SS-38588W), Engrs, 01 Sep 2005
 Rajat Singh (SS-38630K), Mech Inf, 01 Sep 2005
 S Vijay Kumar (SS-38633K), Sigs, 01 Dec 2005
 Randeep Hundal (SS-38640N), Inf, 01 Sep 2005
 Armit Sharma (SS-38651A), Inf, 01 Sep 2005
 Ashim Saha (SS-38670L), Inf, 01 Sep 2005
 Vijay M (SS-38676M), Inf, 01 Sep 2005
 GK Zhimo (SS-38689K), Inf, 01 Sep 2005
 YA Khan (SS-37527M), Arty, 30 Sep 2005
 Siddharth Singh Rath (SS-38716H), AC, 01 Sep 2005
 Sanjay Mukerjee (SS-38738F), Inf, 01 Sep 2005
 SC Sharma (SS-37744H), AAD, 31 Aug 2005
 Lokeshwaran PS (SS-38758P), EME, 01 Sep 2005
 Surjeet Singh Gill (SS-38762X), Inf, 01 Sep 2005
 B Bharanidharan (SS-38778H), Arty, 01 Sep 2005
 Raj Kumar Aditya Singh (SS-38798W), Inf, 01 Sep 2005
 Mahesh Kumar (SS-38805F), AAD, 01 Sep 2005
 JB Shridkar (SS-38813), Int, 01 Sep 2005

MLN SRAVAN KUMAR

Col
Col MS 7

No. 112, dated 7th February 2007.—The President is pleased to retire Shri MK Bhardwaj, Senior Principal Private Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.1.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

SK DEB
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 113, dated 12th February 2007.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Lt Gen MP Jaiprakash, AVSM (MR-02250A), AMC PC, 31 May 2006 (AN)

Brig VR Deshpande (MR-03726N), AMC PC, 30 Jun 2006 (AN)

Brig S Mukherjee, VSM (MR-04449A), AMC PC, 31 May 2006 (AN)

Brig DS Shekhawat (MR-04683W), AMC PC, 31 May 2006 (AN)

Brig KR Saraf (MR-04454L), AMCPC, 31 May 2006 (AN)
 Brig S Chaudhuri (MR-04616L), AMCPC, 31 Mar 2006 (AN)
 Col RK Bajpai (MR-03177Y), AMCPC, 31 Jan 2006 (AN)
 Col AK Mukherjee (MR-03567F), AMCPC, 31 Jan 2006 (AN)
 Col SC Gupta (MR-03622M), AMCPC, 28 Feb 2006 (AN)
 Col HS Dravid (MR-03553F), AMCPC, 30 Apr 2006 (AN)
 Col P Isaac (MR-04025K), AMCPC, 31 May 2006 (AN)
 Col KRS Nair (NTR-16481F), AMCPC, 31 May 2006 (AN)
 Lt Col RS Rana (NTR-16567A), AMCPC, 30 Jun 2006 (AN)
 Lt Gen Ramji Rai, AVSM, VSM & PHS (MR-02064K), AMCPC, 30 Sep 2005 (AN)
 Maj Gen A Chattopadhyay (MR-03267A), AMC PC, 30 Sep 2005 (AN)
 Brig Surjit Singh (MR-04821M), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)
 Brig BK Singh (MR-04457Y), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)
 Brig R Kapoor (MR-03315P), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)
 Brig SS Jog (MR-02879L), AMCPC, 31 Mar 2005 (AN)
 Brig PL Gupta (MR-03646W), AMCPC, 31 Oct 2005 (AN)
 Col SC Mohanty (MR-04684Y), AMCPC, 30 Jun 2005 (AN)
 Col S Mohan (MR-02776M), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)
 Col AK Malavia (MR-03016W), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)
 Col NS Pawar (MR-03612H), AMCPC, 30 Sep 2005 (AN)
 Lt Col CT Arasu (NTR-16418M), AMCPC, 30 Sep 2005 (AN)
 Col S Sabhlok (MR-03270A), AMC PC, 31 Dec 2005 (AN)
 Col LD Sharma (MR-03269L), AMCPC, 31 Oct 2005 (AN)
 Col PC Sharma (MR-04469N), AMCPC, 31 Oct 2005 (AN)
 Col KR Nair (MR-02666X), AMCPC, 30 Nov 2005 (AN)
 Lt Col KK Swami (MR-03621K), AMCPC, 31 Aug 2005 (AN)

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS(P)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 114, dated 8th February 2007.—In Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 22 Oct 2005, under the heading SHORT SERVICE COMMISSION and sub heading "To be Lieutenant on Probation" the following

amendment is made against the undermentioned Short Service Commission Officers :—

FOR : To be Lieutenant on Probation

Vipul Kumar Singh (VS-1101), RVC, 20 Jun 2005
 Dinesh Nagar (VS-1102H), RVC, 20 Jun 2005
 Sudeesh S Nair (VS-1103L), RVC, 20 Jun 2005
 Jesjith P (VS-1104N), RVC, 20 Jun 2005
 Winson Daniel Abraham C (VS-1105W), RVC, 20 Jun 2005
 N Babu (VS-1106Y), RVC, 20 Jun 2005
 Krishnendu Kundu (VS-1107F), RVC, 20 Jun 2005
 S Subeesh (VS-1108K), RVC, 20 Jun 2005
 Fernandes Richmark Igini (VS-1109M), RVC, 20 Jun 2005
 Navneet Joshi (VS-1110F), RVC, 20 Jun 2005
 Manish Kumar (VS-1111K), RVC, 20 Jun 2005
 Prashant Tripathi (VS-1112M), RVC, 20 Jun 2005
 Sanjeeth BS (VS-1113P), RVC, 20 Jun 2005
 Anish Antony (VS-1114X), RVC, 20 Jun 2005
 Deepak EV (VS-1115A), RVC, 20 Jun 2005
 Doddappa Hugar (VS-1116H), RVC, 20 Jun 2005
 Rajendra Singh Yadav (VS-1117L), RVC, 20 Jun 2005
 Mukesh Kumar Parti (VS-1118N), RVC, 20 Jun 2005
 V Kamalraj (VS-1119W), RVC, 20 Jun 2005
 Faustin Joy (VS-1120L), RVC, 20 Jun 2005
 Noble T George (VS-1121N), RVC, 20 Jun 2005
 Philip Varghese (VS-1122W), RVC, 20 Jun 2005
 Rahul Babulal Dange (VS-1123Y), RVC, 20 Jun 2005

READ : To be Capt on Probation

Vipul Kumar Singh (VS-1101), RVC, 20 Jun 2005
 Dinesh Nagar (VS-1102H), RVC, 20 Jun 2005
 Sudeesh S Nair (VS-1103L), RVC, 20 Jun 2005
 Jesjith P (VS-1104N), RVC, 20 Jun 2005
 Winson Daniel Abraham C (VS-1105W), RVC, 20 Jun 2005
 N Babu (VS-1106Y), RVC, 20 Jun 2005
 Krishnendu Kundu (VS-1107F), RVC, 20 Jun 2005
 S Subeesh (VS-1108K), RVC, 20 Jun 2005
 Fernandes Richmark Igini (VS-1109M), RVC, 20 Jun 2005
 Navneet Joshi (VS-1110F), RVC, 20 Jun 2005
 Manish Kumar (VS-1111K), RVC, 20 Jun 2005
 Prashant Tripathi (VS-1112M), RVC, 20 Jun 2005
 Sanjeeth BS (VS-1113P), RVC, 20 Jun 2005
 Anish Antony (VS-1114X), RVC, 20 Jun 2005
 Deepak EV (VS-1115A), RVC, 20 Jun 2005
 Doddappa Hugar (VS-1116H), RVC, 20 Jun 2005
 Rajendra Singh Yadav (VS-1117L), RVC, 20 Jun 2005
 Mukesh Kumar Parti (VS-1118N), RVC, 20 Jun 2005
 V Kamalraj (VS-1119W), RVC, 20 Jun 2005
 Faustin Joy (VS-1120L), RVC, 20 Jun 2005
 Noble T George (VS-1121N), RVC, 20 Jun 2005
 Philip Varghese (VS-1122W), RVC, 20 Jun 2005
 Rahul Babulal Dange (VS-1123Y), RVC, 20 Jun 2005

SP SHARMA
 Under Secy.